



STL/SEC/2024-2025

Manager – Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Registered Office: Floor 25,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Dear Sir/Madam,

Company Scrip Code: 514264 | ISIN: INE707B01010

Subject: Newspapers Publication regarding the 38th Annual General Meeting. e-voting information. cut-off date and Book Closure.

In furtherance to our letter dated August 24, 2024 regarding Notice of 38th Annual General Meeting, e voting information, Annual Report 2023-24, Cut-off date and Book Closure, please find enclosed herewith copy of Newspapers advertisement, as per details given hereunder:

1. Jansatta (Hindi Newspaper) dated 25th August 30, 2023;
2. Financial Express (English Newspaper) dated 25th August 30, 2023.

The above is for your information and records, please.

Yours faithfully,

For SEASONS TEXTILES LIMITED

SAURABH

H ARORA

SAURABH ARORA

Company Secretary and Compliance Officer

Date: 26-08-2024

Place: Noida

Encl: As above

DN: c=IN, postalCode=282005, st=UTTAR PRADESH,
street=AGRAH SARLA BAGH DAYAL BAGH NEAR HANUMAN
MANDIR, 282005, ou=AGRA, cn=Personal, title=2216,
serialNumber=59782014d084af2fbed8ba885df7266124cb8a495
123a21c5b3b08bc2bac3e69,
pseudoDnType=221602231025110040022,
2.5.4.20-b784fb51e72bd9c72140b54d790c06c9d17272d4d28
2470db86357646303c8,
email=SAURABHSTAR2K1@REDIFFMAIL.COM, cn=SAURABH
ARORA
Date: 2024.08.26 18:13:28 +05'30'
Adobe Acrobat Reader version: 2024.002.20991

SEASONS TEXTILES LIMITED

Corp Office/Mailing Address: B-18, Sector-5, Noida, 201 301 (U.P.), INDIA

Tel: -91 120 4690000, Fax: +91 120 4351485

Registered Office: 26, Froze Gandhi Road (Lower Ground Floor), Lajpat Nagar 3, New Delhi
South Delhi 110024

Tel: +91 11 47675000, fax: +91 11 41805599

Email: cs.stl@seasonsworld.com, Website: www. Seasonsworld.com

CIN: L74999DL1986PLC024058



पंजीकृत कार्यालय: इंदियन अर्थव्यवस्था एवं प्रबंधन विभाग, नया दिल्ली, पिनकोड 110002
शाखा कार्यालय: लोकरोड रोड, एनडी-25, फ्लोर-25, ब्लॉक-25, नया दिल्ली, पिनकोड-110025
क्यान्सा सुचना (आयएस 30) के तहत
द्विपक्षीय वित्त (प्रवर्धन) विभाग, 2002 के विभाग 8(1) के अंतर्गत

जनकै अमोल्यारानी, विनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पूर्णकालिक तथा प्राविधिक वित्त प्रबंधन अधिनियम 2002 (का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के प्रावधानों अधिकांश होने के तहत तथा प्राविधिक अधिनियम, 2002 के नियम 30 के तहत प्रावधान 13(1)(2) के अंतर्गत प्राप्त शांतिपूर्ण का प्रमाण करने हुए दिनांक 05.03.2024 को एक मॉड्यूल नोटिस जारी किया जिसमें उपरोक्तकां अग्रणी श्री राजेश शाह, श्री मंगेश शाह, श्री मुनिश शाह, श्रीमती मन्ना शाह, श्री मुदनी मंगेश शाह और मेसर्स एमआर एलएआइजी द्वारा शांति प्राप्त करने में असफल रहने के कारण, उपरोक्तकां और आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरित में चर्चा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्ताव शांतिपूर्ण का प्रमाण करते हुए, युक्तिपूर्ण विवरण, 2002 के विभाग 8 के तहत प्रेषित, इत 23 अगस्त 2024 को, नीचे वर्णित सूचना पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उपरोक्तकां और आम जनता को सूचित करने के अंतर्गत श्री लीमन-25 न कनेजी की सेवाओं की जाति है और निर्देशित से संबंधित कोई भी लेमन-25 अधिवक्ता बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा न. 1.30.48.418/- और श्री मुनिश शाह, श्रीमती मन्ना शाह, श्री मुदनी मंगेश शाह और मेसर्स एमआर एलएआइजी द्वारा शांति प्राप्त करने में असफल रहने के कारण, उपरोक्तकां और आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरित में चर्चा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्ताव शांतिपूर्ण का प्रमाण करते हुए, युक्तिपूर्ण विवरण, 2002 के विभाग 8 के तहत प्रेषित, इत 23 अगस्त 2024 को, नीचे वर्णित सूचना पर कब्जा ले लिया है।

उपरोक्तकां का ध्यान सुनिश्चित परिस्थितियों को अनुमान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(4) की धारा-25 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अबल संचित का विवरण

मौजदा पूरा रूप, नगर, नया बेंगलू, अनामोल, सेक्टर 28, जयपुर, पिनकोड-302038 में फॉर नंबर बी-126 (किरोसी बी-126 और बी-126B के नाम से जो जाना जाता है), का पूरा हिस्सा
स्थान: जयपुर दिनांक: 23.08.2024 अधिकृत अधिकारी (आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड)

पेट्रैक बिजनेस लिमिटेड

सीआईएन: L74999DL1984PLC018747
पंजी. कार्यालय: प्रोप नं. 325, लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीपीए कस्बुमिटी रोड, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ईमेल: crazyprince@gmail.com, वेबसाइट: www.patback.in

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स पेट्रैक बिजनेस लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 20 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे, यथा: नया, 325, लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीपीए कस्बुमिटी सेंटर, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (बैठक) में आयोजित की जाएगी।

बैठक बुलाने की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर कृपया द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिन्होंने कट-ऑफ सार्वजनिक यानी 16 अगस्त, 2024 तक डिपॉजिटरी/ कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है और सूचना प्रेषित की प्रक्रिया दिनांक 23 अगस्त, 2024 को नैतिक रूप से पूरी की गई। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.patback.in) पर उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रमाण करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार, जिसमें अन्य वार्डों के साथ-साथ यूपर आइडी और पासवर्ड शामिल है, एवं बैक बुलाने की सूचना की एक प्रति के साथ सदस्यों को भेज दी गई है। ई-वोटिंग के लिए संचार का प्रमाण कंपनी की वेबसाइट (www.patback.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और 15 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि (फॉरवर्ड तिथि), यानी बुधवार, 13 अगस्त, 2024 को सदस्यों/ लाभांशों मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर प्राप्त करता है, वह अन्य वार्डों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूपर आइडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूपर आइडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैक की सूचना में भी प्रदान की गई है जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूपर आइडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

ईमेल पते का पंजीकरण: दिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिजिटल पारिस्थितिक और नैतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरपीए) के साथ अपडेट करें।

बही बंदी : इसके अलावा नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर बही, 40वीं एजीएम के लिए 14.09.2024 से 20.09.2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

पेट्रैक बिजनेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/—
पवन कुमार मिश्रा
निदेशक
दिनांक: 23.08.2024
स्थान: नई दिल्ली
ईआईएन: 00749265

PRO CLB GLOBAL LIMITED
(FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED)
CIN: L74899DL1994PLC058964
Regd. Office: 5/34, Third Floor, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi 110005 | Email: deepika.proclbglobal@gmail.com
Ph: +91 9582325860 | Website: www.proclbglobal.com

Information Regarding 30th Annual General Meeting of PRO CLB GLOBALLIMITED

1. NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M. (IST) at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 to transact the business (es) as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the members by E-mail.

2. 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M. IST.

3. The Said Notice along with Annual Report for the Financial Year will be sent only by the electronic mode to all the Members at their registered email-ids and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com . The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

4. Shareholders will have an opportunity to cast their vote on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting System. The Log in credentials for casting the votes through remote e-voting shall be made available to the shareholders through e-mail. The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting and voting system shall be provided in the Notice of the AGM.

5. Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com.

NOTICE FOR 30th(ANNUAL GENERAL MEETING) AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting(AGM) of the Companywill be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M. (IST) at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 to transact the business (es) as set out in the Notice dated August 22, 2024. The Said Notice along with Annual Report has been sent to all the Members at their registered email-ids by August 24, 2024 and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com . The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 10, 2024 to Sunday, September 15, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the year ended March 31, 2024.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report for the year 2024 has been sent electronically on August 24, 2024 to those members who have registered their e-mail id addresses with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company).

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd.(beetalra@gmail.com) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014:

- The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 30th AGM dated August 22, 2024
- Commencement of remote e-voting: Friday, September 13, 2024 10:00 Hrs (IST)
- End of remote e-voting: Sunday, September 15, 2024 17:00 Hrs (IST)
- Record Date/Cut-off date: September 09, 2024.
- Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17:00 Hrs (IST) on Sunday, September 15, 2024.

The result of the Remote E-voting /voting shall be declared on or before September 18, 2024. The Result declared, along with Scrutinizer Report will be available at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communication to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

By order of the Board
For PRO CLB GLOBAL LIMITED
(Formerly Provestment Services Limited)
Sd/-
Date: 24.08.2024
Place: New Delhi
Deepika Rajput
(Company Secretary & Compliance Officer)

रिच यूनिफॉर्म नेटवर्क लिमिटेड
CIN: L51100UP1990PLC012089
(पूरी को रिच कैंपेटर एंड फार्नेचियर सर्विसेज लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: 7/125, सी-2, इंदियन प्ले, स्वयंभू नगर, काणपुर - 208002,
टेली फैक्स: 0512-2540239, ईमेल: rcfsl@redfilmail.com,
वेबसाइट: www.richuninet.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी को 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, तिथि 2024 को शाम 4:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय इंदियन प्ले, 7/125, सी-2, स्वयंभू नगर, काणपुर - 208002 में एक एजीएम की बैठक की सूचना दिनांक 08 अगस्त, 2024 में उल्लिखित प्रक्रिया करने के लिए (आवृत्तियों को छोड़कर) संबंधित परिणामों के अनुपालन में, दिनांक 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण (एडवॉकलेट), बंद की गई थी, ऑडिटर को रिपोर्ट और इसके साथ संगत किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिन्होंने ईमेल पता कंप्यूटरीजिस्ट्रार प्रिमाणियों (पी) के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी को वेबसाइट और रॉक एक्सचेंज यानी बीएसडीएल के वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

प्राधान्यपूर्ण प्राधान्य (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 के तहत पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्राधान्य और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यकारी और प्रकटीकरण अध्याय) विवरण, 2015 के विवरण 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का वोट देने और शेयर हस्तांतरण प्रदर्शन एजीएम के उद्देश्य से 11 सितंबर, 2024 से 18 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सामंजस्य) तक बंद रहेगी। प्राधान्यपूर्ण प्राधान्य (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के तहत पंजीकृत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्राधान्य और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यकारी और प्रकटीकरण अध्याय) विवरण 2015 के विवरण 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को वेबसाइट सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित सभी व्यवहार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग कर सकते हैं।

रिमोट वोटिंग की सुविधा का उपयोग इस प्रकार है कि:

- (क) रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ 9 अगस्त, 2024 को सुबह 09:00 बजे या उसके बाद और 17 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे या उसके बाद होगा।
- (ख) वोटें व्यक्ति, जिसने रिमोट वोट की सुविधा नहीं 23 सितंबर, 2024 के बाद शेयर खरीदी है और कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तिथि है।
- (ग) रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के उद्देश्य के लिए, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होगी और 17 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
- (घ) नैतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रमाणियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें, जिसके साथ वे अपने वोट डालने के लिए अपडेट करें।
- (च) ईमेल पते का पंजीकरण: दिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिजिटल पारिस्थितिक और नैतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरपीए) के साथ अपडेट करें।
- (छ) ईमेल पते का पंजीकरण: दिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिजिटल पारिस्थितिक और नैतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरपीए) के साथ अपडेट करें।
- (ज) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और 15 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (झ) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि (फॉरवर्ड तिथि), यानी बुधवार, 13 अगस्त, 2024 को सदस्यों/ लाभांशों मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कोई के आदेशानुसार

रिच यूनिफॉर्म नेटवर्क लिमिटेड
हस्ता/—
पवन कुमार मिश्रा
निदेशक
दिनांक: 23.08.2024

कांटीनल सिक्योरिटीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: नई दिल्ली, मेडो नगर, पॉपुलर पार्क, जयपुर-302001 (राजस्थान),
ई. फोन: continentalsecurities@rediffmail.com, वेबसाइट: www.continentalsecuritiesltd.com
फोन: 0141-2394337, CIN: L61720RJ1990PLC005371

34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), ई-वोटिंग संबंधी सूचना एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (आरपीए) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय इंदियन प्ले, 7/125, सी-2, स्वयंभू नगर, काणपुर - 208002 में एक एजीएम की बैठक की सूचना दिनांक 08 अगस्त, 2024 में उल्लिखित प्रक्रिया करने के लिए (आवृत्तियों को छोड़कर) संबंधित परिणामों के अनुपालन में, दिनांक 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण (एडवॉकलेट), बंद की गई थी, ऑडिटर को रिपोर्ट और इसके साथ संगत किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिन्होंने ईमेल पता कंप्यूटरीजिस्ट्रार प्रिमाणियों (पी) के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी को वेबसाइट और रॉक एक्सचेंज यानी बीएसडीएल के वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

31 अगस्त, 2024 का समाप्त दिनांक वर्ष के लिए कंपनी की 34वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना, ई-वोटिंग विवरण सहित बीबी/ओवीएल/सूचना के माध्यम से 34वीं एजीएम में शामिल होने के लिए, लांश विवरण के साथ उन सभी सदस्यों को जिन्होंने ई-मेल पता कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजीएम के लिए (आवृत्तियों को छोड़कर) संबंधित परिणामों के अनुपालन में, दिनांक 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण (एडवॉकलेट), बंद की गई थी, ऑडिटर को रिपोर्ट और इसके साथ संगत किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिन्होंने ईमेल पता कंप्यूटरीजिस्ट्रार प्रिमाणियों (पी) के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी को वेबसाइट और रॉक एक्सचेंज यानी बीएसडीएल के वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के तहत पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्राधान्य और सेबी (एएसडीएल) विवरणों के अनुपालन में दिनांक 24, भागती कंपनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरपीए) पर वोटें) और ई-वोटिंग (एजीएम) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम, 15 सितंबर 2024 (शुक्रवार) 2024 (शुक्रवार) 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और 17 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आवृत्तियों) तक बंद रहेगी।

रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम, 15 सितंबर 2024 (शुक्रवार) 2024 (शुक्रवार) 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और 17 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आवृत्तियों) तक बंद रहेगी।

एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि (फॉरवर्ड तिथि), यानी बुधवार, 13 अगस्त, 2024 को सदस्यों/ लाभांशों मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर प्राप्त करता है, वह अन्य वार्डों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूपर आइडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूपर आइडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैक की सूचना में भी प्रदान की गई है जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूपर आइडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

ईमेल पते का पंजीकरण: दिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिजिटल पारिस्थितिक और नैतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरपीए) के साथ अपडेट करें।

बही बंदी : इसके अलावा नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर बही, 40वीं एजीएम के लिए 14.09.2024 से 20.09.2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

पेट्रैक बिजनेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/—
पवन कुमार मिश्रा
निदेशक
दिनांक: 23.08.2024

SEASONS TEXTILES LIMITED
CIN: L18101DL1986PLC024058
Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi - 110 024
Phone : 0120-4699000, Fax : 0120-4351485,
Website : www.seasonsworld.com, E Mail : cs.st@seasonsworld.com

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Seasons Textiles Limited will be held on **Friday, 27th September 2024**, at 11:30 AM, through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OVAM") facility, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, at 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi - 110 024.

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, the 38th AGM of the Company is being held on **Friday, 27th September 2024**, at **11:30 AM**, through VCOAVM, without the physical presence of the Members.

Further, electronic copies of the Annual Report of the Company for the financial year 2023-2024 which comprises of Notice for calling the 38th AGM, Directors' Report, Audited Standalone Financial Statements, and Auditors Reports thereon, have been sent Saturday 24 August, 2024, to all the Members whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants/ Skyline Financial Services Private Limited ("Registrar & Transfer Agent"). It is also available on the Company's website, www.seasonsworld.com, website of Central Depository Services Limited (CDSL), www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and www.bseindia.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, i.e., **Friday 27th September 2024**, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of CDSL ("Remote e-Voting"). All the Members are hereby informed that:

- The business, as set out in the Notice of the AGM, may be transacted through Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM.
- The Remote e-Voting shall commence on **Tuesday, September 24, 2024 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 P.M. (IST)**.
- The Cut-off date for determining the eligibility to vote will be Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM shall be **Friday 20th September 2024**;
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after circulation of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off Date, i.e., **Friday 27th September 2024** may obtain the login ID and password by sending a request at you can write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911 However, if a person is already registered with CDSL for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote.
- Members may note that:
 - The Remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 PM on 26th September 2024. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
 - the facility for voting electronically will be made available during the AGM;
 - the Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM, may also attend the AGM through VCO/AVM, but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - a person whose names is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM.
- The detailed procedure and instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dahi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Tower, Mafatlal Mill Compounds, N.M.Joshi Marg, Lower Panel (East), Mumbai-400019 or send an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call toll free no. 1800 21 09911 or write to the Company at cs.st@seasonsworld.com.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with Scrutinizer Report will be placed on the website of the Company at www.seasonsworld.com immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well as the Corporate Office of the Company.

NOTICE OF BOOK CLOSURE:
Notice hereby given under Section 91 of Companies Act, 2013 and Rule Made thereunder the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024, to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive).

By order of the Board
For Seasons Textiles Limited
Sd/-
SAURABH ARORA
Company Secretary and Compliance Officer
Date: 24/08/2024
Place: Noida

परफेक्टवर्क लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 9/10, विरोधी टॉवर-43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

ई-मेल आईडी: compliance@perfectcorp.com, वेबसाइट: www.perfectcorp.com

सीआईएन: L72100DL1972PLC005971, फोन नंबर: 011-26441015-18

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्राधान्यों के अनुपालन में, भारतीय प्रभिकरण और वित्तीय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यकारी और प्रकटीकरण अध्याय) विवरण, 2015 यथा लागू परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ प्रेषित, समाप्त-संगत पर जारी किए गए बार्ड के परिपत्रों के साथ प्रेषित, नवीनतम सामान्य परिचय 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ("परिपत्र परिपत्र") और दोनों परिपत्र संख्या 25 सितंबर/एजीएम/सीएचडी/सीआईडीए/सीआईडीए/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र-संगत पर जारी किए गए बार्ड के परिपत्र हैं। नवीनतम सितंबर/एजीएम/सीएचडी/सीआईडीए/सीआईडीए/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र-संगत पर जारी किए गए बार्ड के परिपत्र हैं। नवीनतम सितंबर/एजीएम/सीएचडी/सीआईडीए/सीआईडीए/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र-संगत पर जारी किए गए बार्ड के परिपत्र हैं। नवीनतम सितंबर/एजीएम/सीएचडी/सीआईडीए/सीआईडीए/पी/2

PHF LEASING LIMITED
 Regd. & Corp. Off : 87, Radio Colony, BMC Chowk, Jalandhar - 144001, Punjab
 E-Mail id : phf_leasingltd@yahoo.co.in Website : www.phfleasing.com
 CIN : L65110PB1992PLC02488 Ph : +91 9151-04041

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of "PHF Leasing Limited" is scheduled to be held on Thursday, September 19, 2024 at 12:00 Noon IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the ordinary business and unavoidable special business set forth in the Notice calling the AGM. The Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-2024, will be sent electronically to all the members, whose email addresses are registered with the Company or the Registrar & Share Transfer Agent (RTA). The Notice of AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.phfleasing.com and on the website of the Stock Exchange i.e. MSEI Limited at www.msei.in

Manner of registering/updating e-mail address to cast vote through e-voting
 (i) Members holding shares in dematerialized form, are requested to register their email addresses with their relevant depositories through their depository participants. However, for temporary registration for the purpose of obtaining this notice, shareholders may register their email ids with the Company by writing to Ms. Shikha Kapoor, Company Secretary of the Company, at her email-id compliance@phfleasing.com.
 (ii) Members holding shares in physical mode are requested to register their email addresses with the Company by writing to Ms. Shikha Kapoor, Company Secretary at her email id compliance@phfleasing.com or to Registrar & Share Transfer Agent, M/s Skyline Financial Services Private Limited at its e-mail id admin@skyclinert.com by quoting your Folio No., PAN, Mobile No., Email-id along with a self-attested copy of your PAN Card Aadhar and Share Certificate (front and back).

Manner of casting vote(s) through e-voting
 The Company has engaged National Securities Depository Limited for the purpose of providing facility of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM. The manner of voting, including remote e-voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically at the AGM.

Joining the AGM through VC/OAVM
 The relevant details about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the notice of AGM.
 For detailed instructions relating to attending the meeting through VC or OAVM, members are requested to refer to the Notice of AGM.

For PHF Leasing Limited
 Sd/-
 Shikha Kapoor
 Company Secretary, M. No.: A19146

Place: Jalandhar
 Date: August 25, 2024

PNB Punjab National Bank
 The name you can BANK upon!

**General Services Administration Division,
 Circle Office - Bulandshahar,
 Email Id: cobsrgad@pnb.co.in**

CORRECTION

It is informed to the general public and all the customers that as per the information published in this newspaper on 10.08.2024, the date 27.08.2024 was fixed for the shifting of Deputygani, Bulandshahar branch under Punjab National Bank, Circle Office Bulandshahar. Due to some unavoidable reasons, the shifting could not be possible on the scheduled date. Hence, the new date of shifting will be announced soon.

Date: 23.08.2024 Circle Head

**FORM A
 PUBLIC ANNOUNCEMENT**
 (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF CIAN RETAIL PRIVATE LIMITED

1. Name of Corporate Person	CIAN RETAIL PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of Corporate Person	10th March 2006
3. Authority under which Corporate Person is incorporated/registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana
4. Corporate Identity number / limited liability identity number of Corporate Person	U45201DL2006PTC147354
5. Address of the registered Office and Principal office (if any) of Corporate Person	Registered Office: 204, Ground/F/F Okhla Ind. Estate Ph-II, New Delhi, South Delhi- 110020 IN
6. Liquidation commencement date of Corporate Person	21st August 2024
7. Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Name: Sanjay Agrawal Address: Plot No 39, Pocket-1, Jasola, New Delhi-110025 E-Mail: sja001@gmail.com, ip.cianretail@gmail.com Mobile No.: 9810376790, 9811076790 Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00494/2017-2018/10882
8. Last date for submission of claims	20th September 2024

Notice is hereby given that the CIAN RETAIL PRIVATE LIMITED has commenced voluntary liquidation on 21st August 2024. The stakeholders of CIAN RETAIL PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 20th September 2024, to the liquidator at the address mentioned against them. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sd/-
SANJAY AGRAWAL
 Liquidator for CIAN RETAIL PRIVATE LIMITED
 Date: 23.08.2024 Place: New Delhi Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00494/2017-2018/10882

PUBLIC NOTICE

It is for the information of General Public that the Environmental Clearance of our Project namely "The Woodlands" at Village Mullanpur, Jagraon Section, adjoining to Rhythim Resorts, Tehsil Mullanpur, Dakha District Ludhiana, Punjab by M/s Holistic Developers and Builders has been granted by State Level Environment Impact Assessment Authority vide EC Identification No. EC24B3813PB5856007N dated 15.04.2024. Copy of the Environmental Clearance is available with Punjab Pollution Control Board, Patiala and may be seen there, if desired, on any working day.

By :
M/S HOLISTIC DEVELOPERS AND BUILDERS
 Village Mullanpur, Jagraon Section, Adj. To Rhythim Resorts, Tehsil Mullanpur Dakha District Ludhiana, Punjab

GANESHA ECOVERSE LIMITED
 (Formerly Known as SVP Housing Limited)
 CIN: L13114DL2003PLC118413
 Regd. Office: P3-211, SECOND FLOOR, CENTRAL SQUARE 20, MANOHAR LAL KHURANA MARG, BARA HINDU RAO, DELHI-110006
 E-mail : ganeshaecoverse@gmail.com. Website : www.ganeshaecoverse.com
 Tel. No : +91-9415108158

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 21st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of the Company will be held on **Monday, September 16, 2024 at 4:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with MCA Circulars dated 25th September, 2023, 28th December, 2022, 5th May, 2020, 13th April, 2020, 8th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circulars dated 7th October, 2023, 5th January, 2023, 13th May 2022 and 12th May, 2020 (collectively referred to as SEBI Circulars) to transact business set forth in the Notice of the AGM.

In Compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 will be sent only through electronic mode to all the Members of the Company, who have registered their email IDs with the Depository Participants/ Registrar and Share Transfer Agents ("RTA"). The aforesaid documents shall be available on Company's website at www.ganeshaecoverse.com and shall also be available on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

It is hereby informed that:

(a) The manner of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.
 (b) Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company's RTA, M/s. Bigshare Services Private Limited at Bsdsdelhi@bigshareonline.com. In this regard, Members are requested to submit a duly signed request letter mentioning their name, Folio no, address and email id along with a self-attested copy of PAN card. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their Depository Participant(s).

For Ganeshacoverse Limited
 (Formerly known as SVP Housing Limited)
 Sd/-
 (Neha Gaiwani)
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kanpur Date: 24th August, 2024

Classifieds

PERSONAL

- I, Sarika w/o Saeedul Hasan R/o 134, Azad Nagar, Kamalganj, Farrukhabad, Uttar Pradesh-209724, have changed my name to Naseem Jahan Permanently
 0040745633-10
- I, Sania D/o Md Shakeel, R/o P41/A, 2nd Floor, Batla House, Gali No.5, Jamia Nagar, Delhi-110025, have changed my name to Sania Khatoun Permanently.
 0040745633-9
- I, Karanpreet, Karanpreet Singh S/o Jagtar Singh R/o House.No.1022, Sector-46, Amarnagar, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name to Karanpreet Singh Nanray.
 0040745626-3
- I, Jasmeet, Jasmeet Kaur W/o Karanpreet Singh Nanray R/o House No.1022, Sector-46, Amarnagar, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name to Jasmeet Kaur Nanray.
 0040745626-2
- I, Jasmeet Kaur Nanray, W/o Karanpreet Singh Nanray, R/o House No.1022, Sector-46, Amarnagar, Faridabad, Haryana-121003, have changed the name of my minor son, from Gurnoor Singh to Gurnoor Singh Nanray.
 0040745626-6

SEASONS TEXTILES LIMITED
 CIN - L18101DL1986PLC024058
 Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110 024
 Phone : 0120-4690000, Fax : 0120-4351485,
 Website : www.seasonsworld.com, E mail : cs.stl@seasonsworld.com

NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Seasons Textiles Limited will be held on **Friday, 27th September 2024**, at 11:30 AM, through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, at 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110 024.

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, the 38th AGM of the Company is being held on **Friday, 27th September 2024, at 11:30 AM**, through VC/OAVM, without the physical presence of the Members.

Further, electronic copies of the Annual Report of the Company, for the financial year 2023-2024 which comprises of Notice for calling the 38th AGM, Directors' Report, Audited Standalone Financial Statements, and Auditors Reports thereon, have been sent Saturday 24 August, 2024, to all the Members whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants/ Skyline Financial Services Private Limited ("Registrar & Transfer Agent"). It is also available on the Company's website, www.seasonsworld.com, website of Central Depository Services Limited (CDSL), www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, i.e., **Friday 20th September 2024**, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of CDSL ("Remote e-Voting"). All the Members are hereby informed that:

- The business, as set out in the Notice of the AGM, may be transacted through Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM;
- The Remote e-Voting shall commence on **Tuesday, September 24, 2024 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 P.M. (IST).**;
- The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM shall be **Friday 20th September 2024**;
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the company after circulation of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off Date, i.e., **Friday 20th September 2024** may obtain the login ID and password by sending a request at you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911. However, if a person is already registered with CDSL for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote;
- Members may note that:
 - The Remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 PM on 26th September 2024. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
 - the facility for voting electronically will be made available during the AGM;
 - the Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - a person whose names is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM.
- The detailed procedure and instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Malafal M1 Compounds, N M Joshi Marg, Lower Panel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911 or write to the Company at cs.stl@seasonsworld.com.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with Scrutinizers Report will be placed on the website of the Company at www.seasonsworld.com immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well as at the Corporate Office of the Company.

NOTICE OF BOOK CLOSURE:
 Notice hereby given under Section 91 of Companies Act, 2013 and Rule Made thereunder the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024, to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive).

By order of the Board
 For Seasons Textiles Limited
 Sd/-
SAURABH ARORA
 Company Secretary and Compliance Officer

Date: 24/08/2024 Place: Noida

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियन बैंक Indian Bank
 इलाहाबाद ALLAHABAD

POSSESSION NOTICE (for immovable properties under Rule 8(1))
 The Authorized Officer of Indian Bank, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with Rule-8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Indian Bank, for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows:

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (B) for section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name and Address of Borrowers/Mortgagor/Guarantors	Details of the Immovable Properties on which possession taken	Date of demand notice	Date of possession	Amt. Due (₹)
Borrower:- 1) Ms. Shikha Samli Magna through its manager Mr. Harendra Pal Singh, 2) Ms. Shikha Samli magna through its Treasurer Smt. Nardada Devi, Add. of both Smt. Leela Devi Higher Sec. School Magna Mauza Nagla Gukhroli Baldeo, Mahavan, Mathura, Guarantors: Montagar-1) Shri Harendra Pal Singh S/o Shri Devi Singh, 2) Smt. Sukhri Devi W/o Shri Harendra Singh, Add. of both- Magna Gukhroli Baldeo Mathura, 3) Shri Chandra Shekhar S/o Shri Hardam Singh, Add- Aweri, Baldeo Mathura, 4) Shri Niranjan Singh Soanki S/o Shri Soveran Singh, Add- Village Dal, Mathura, 5) Mrs. Maya Devi W/o Shri Narendra Mohan Singh, Add- Magna, Baldeo Mathura, 6) Smt. Namrata Devi W/o Shri. Munesh Kumar, Add:- Divana Kala Sirhi hi Nagaria Mathura, 7) Smt. Leela Devi College Magna through its Manager Shri Harendra Pal Singh, Add:- Nagla Gukhroli Baldeo Mahavan Mathura, 8) Leela Devi Higher Secondary School Magna through its Manager Shri Harendra Pal Singh, Add:- Mauza Nagla Gukhroli Baldeo, Mahavan Mathura	1) Property at Arazi Khata No. 249, Kharsa No 109, Situated at Village Nagla Gukhauri Block Baldeo Mathura, Area: 1.392 Hectare Share 1/3, in the name of Sukhveen devi W/o Shri Harendra Singh and Maya Devi W/o Shri Narendra Mohan Singh, Bounded as: East: Land of Nirnu, West: Land of Ramgopal, North: Sadak, South: Land of Ramratan 2) Property situated at mauza Gukhroli Block baldeo Mathura Khata No. 107, Kharsa No. 513, Area: 1.012 Hectare, in the name of Leela devi College Magna Block baldeo, Mathura through its manager/Secretary Shri Harendra Singh S/o Shri Devi Singh, Bounded as: East: Araz Ramkali, West: Land of seller, North: Chak Road, South: Chak Road 3) Property situated at Khata no 107 Kharsa no 516 Mauza Gukhroli Mahavan Mathura, Area: 0.368 Hectare share 1/3, in the name of Leela devi Higher Secondary School Magna Block Baldeo, Mathura through its Manager Harendra Singh S/o Devi Singh, Bounded as: East: Chak Road, West: Khet of Narendra Singh, North: Khet of seller, South: Chak Road	31.05.2024	22.08.2024	92.18,107/- as on 21.08.2024 + interest & other expenses

Date: 25-08-2024 Authorized Officer

**OFFICE OF THE
 COMMISSIONER OF INCOME TAX (JUDICIAL)
 ROOM NO. 162-A, C.R. BUILDING, NEW DELHI**

Phone & Fax: 23379308, Email: delhi.cit.judicial@incometax.gov.in

Dated-22.08.2024

F.No. CIT (Judl./NCLT Matter/2024-25/370

NOTICE REGARDING HEARING OF CASES IN NCLT MATTERS

Notice is hereby given to the following companies and their Directors for necessary compliance in respect of NCLT matters/cases, pertaining to revival of these companies, which are fixed for hearing before Hon'ble National Company Law Tribunal, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi on dates as mentioned in column no. 4 in the table below :-

S. N.	Case Number and Case Title	Name(s) of the Last Known Directors	Next Date of Hearing	Court No.
1.	Appeal No. 306/252/ND/2023 Income Tax officer, Ward 24(1) Vs. RoC & (Sneh Broadcasting Networks Pvt. Ltd. PAN: AANC53864J)	1. Mr. ASHLESH KUMAR GUPTA (DIN: 01051357) 2. Mr. MURLIDHAR AGARWAL (DIN: 00823521) 3. Mrs. VANDANA GOSWAMI (DIN: 02552588) 4. Mrs. MEENAKSHI KAUSHIK (DIN: 06793495)	05.11.2024	2
2.	Appeal No. 206/252/ND/2023 Deputy Commissioner of Income Tax, Circle 19(1) Vs. RoC & (Ram Travel and Visa Services Pvt. Ltd. PAN: AAFCR2479A)	1. Mr. KULANND JHA (DIN: 08052024) 2. Mr. VIKRAM KUMAR JHA (DIN: 08052474)	05.11.2024	2
3.	Appeal No. 8/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 26(3) Vs. RoC & (VR.J Infra Developers Pvt. Ltd. PAN: AAFVC2043Q)	1. Mr. MURALI SIVARAMAPILLAI THONDYIL (DIN: 00399183) 2. Mr. NIMAI MITRA (DIN: 07221731) 3. Mr. VISHNU MURALI (DIN: 07534795)	09.10.2024	5
4.	Appeal No. 36/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 19(1) Vs. RoC & (Omido Trading Pvt. Ltd. PAN: AACCO5248B)	1. Mr. AJAY KUMAR KAUSHIK (DIN: 07939953) 2. Mr. GAURAV CHAUDHARY (DIN: 07939955)	09.10.2024	5
5.	Appeal No. 7/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 21(1) Vs. RoC & (Raj Nandini Buildtech Ltd. PAN: AADCR0504J)	1. Mr. RAJ KUMAR PRASAD (DIN: 00089077) 2. Mr. RAVINDER KUMAR (DIN: 00088864) 3. Mrs. MAINAWATI DEVI (DIN: 00089465)	09.10.2024	5
6.	Appeal No. 79/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 21(1) Vs. RoC & (Rally Motors Pvt. Ltd. PAN: AAGCR0587H)	1. Mr. DALBIR SINGH (DIN: 06541038) 2. Mr. RONAK SINGH (DIN: 06541043)	03.10.2024	6
7.	Appeal No. 80/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 21(1) Vs. RoC & (Rankpie India Pvt. Ltd. PAN: AAIICR05441I)	1. Mr. PRAMOD KUMAR (DIN: 08539542) 2. Mr. MANJU SINGH (DIN: 08567937)	03.10.2024	6
8.	Appeal No. 161/252/ND/2023 Income Tax officer, Ward 20(1) Vs. RoC & (Pulkit Estate Pvt. Ltd. PAN: AAECR1948F)	1. Mr. ASHWANI GUPTA (DIN: 01396191) 2. Mr. SANTOSH GUPTA (DIN: 01396239) 3. Mr. RAJ BALA (DIN: 01396262) 4. Mr. YASHVIR GAHLOT (DIN: 01396284)	30.09.2024	3
9.	Appeal No. 211/252/ND/2023 Deputy Commissioner of Income Tax, Circle 19(1) Vs. RoC & (PPNS Innovations Pvt. Ltd. PAN: AAJCP4028K)	1. Mr. PRINCE KUMAR SINGH (DIN: 07867745) 2. Mr. KAUSTUBH MANI SINGH (DIN: 08699346)	30.09.2024	3
10.	Appeal No. 286/252/ND/2023 DCIT, Circle 7(1) Vs. RoC & (F7 Broadcast Pvt. Ltd. PAN: AACCR3183Q)	1. Mr. VIJENDER SINGH (DIN: 02520020) 2. Mr. MANOJ KUMAR TYAGI (DIN: 03309635) 3. Mr. PAWAN GARG (DIN: 07262961)	30.09.2024	3
11.	Appeal No. 19/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 19(1) Vs. RoC & (Organza Investment and Trading Pvt. Ltd. PAN: AAAC00692D)	1. Mr. SHYAM LAL (DIN: 02502707) 2. Mr. NARAD MUKHIYA (DIN: 08099691)	26.09.2024	6
12.	Appeal No. 21/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 21(1) Vs. RoC & (Rapid Design Pvt. Ltd. PAN: AAGCR6737C)	1. Mr. SHREY AHUJA (DIN: 06843994) 2. Mr. ANKIT GUPTA (DIN: 06941020)	26.09.2024	6
13.	Appeal No. 13/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 21(1) Vs. RoC & (Raj Laxmi Realtors Pvt. Ltd. PAN: AADCR2523D)	1. Mr. RAVINDER KUMAR (DIN: 00088864) 2. Mr. MAINAWATI DEVI (DIN: 00089465)	26.09.2024	6
14.	Appeal No. 251/252/ND/2023 DCIT, Circle 22(2) Vs. RoC & (Smart M K Trade World Pvt. Ltd. PAN: AASCS1416P)	1. Mr. AJAY KUMAR (DIN: 07659812) 2. Mr. VIJAY KUMAR (DIN: 07626148)	25.09.2024	5
15.	Appeal No. 13/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 19(1) Vs. RoC & (Oihal Woven Pvt. Ltd. PAN: AACCO7373B)	1. Mr. LAL BAHADUR SHUKLA (DIN: 08168288) 2. Mr. PUSHPENDRA MISHRA (DIN: 08106692)	24.09.2024	4
16.	Appeal No. 16/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 26(1) Vs. RoC & (Veymo Fashions Pvt. Ltd. PAN: AAFVC7829N)	1. Mr. BARUN KUMAR (DIN: 08158087) 2. Mr. MOKSHA RAJ SHROTRIYA (DIN: 08212345)	24.09.2024	4
17.	Appeal No. 20/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 19(1) Vs. RoC & (Origin Signage Equipments Pvt. Ltd. PIN: AABCO8280E)	1. Mr. ROSHAN KUMAR (DIN: 06544122) 2. Mr. AJIT PATEL (DIN: 06960622)	24.09.2024	4
18.	Appeal No. 24/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 19(1) Vs. RoC & (P.J. Apparels Pvt. Ltd. PAN: AAACP2978F)	1. Mr. PANKAJ JAIN (DIN: 01524647) 2. Mr. JAY SHREE JAIN (DIN: 01524708)	24.09.2024	4
19.	Appeal No. 27/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 19(1) Vs. RoC & (PR Tour & Travels Pvt. Ltd. PAN: AAJCP1682M)	1. Mr. PANKAJ KUMAR JHA (DIN: 06925705) 2. Mr. RAJKUMAR GARIBNATH MISHRA (DIN: 07800763)	19.09.2024	6
20.	Appeal No. 18/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 25(1) Vs. RoC & (Tritech Infrastructures India Pvt. Ltd. PAN: AADCT3387M)	1. Mr. AMIT KUMRA (DIN: 00531844) 2. Mr. WANZONG ZHAO (DIN: 05302960) 3. Mr. PENGYU DONG (DIN: 07371134)	18.09.2024	5
21.	Appeal No. 317/252/ND/2023 Income Tax officer, Ward 22(1) Vs. RoC & (Samridhi Frozen Food Pvt. Ltd. PAN: AALCS9979G)	1. Mr. KAILASH KUMAR SAWALKA (DIN: 02112505) 2. Mr. SHIV KUMAR SAWALKA (DIN: 02132643)	12.09.2024	6
22.	Appeal No. 76/252/ND/2024 Income Tax officer, Ward 21(1) Vs. RoC & (Rank Management Consultant Pvt. Ltd.) PAN: AADCR4069E)	1. Mr. RAGHU MENON (DIN: 00137337) 2. Mr. PARIKYAPILLIL ARAVINDAKSA MENON (DIN: 00137414) 3. Mr. ILLATHAMKOT CHANDRA ARAVINDAKSHA MENON (DIN: 03362204)	09.09.2024	3
23.	Appeal No. 203/252/ND/2023 Income Tax officer, Ward 20(3) Vs. RoC & (RK Sharma Construction Pvt. Ltd. PAN: AACCR9240C)	1. Mr. RAKESH KUMAR SHARMA (DIN: 01272487) 2. Mrs. SANJEETA SHARMA (DIN: 01272964)	03.09.2024	2
24.	Appeal No. 311/252/ND/2023 Asstt. Commissioner of Income Tax, Circle 25(1) Vs. RoC & (Universal Facility Management Pvt. Ltd. PAN: AAACU8941K)	1. Mr. RAMAN PURI (DIN: 00048161) 2. Mr. VIKRAM PURI (DIN: 00048622) 3. Mr. VARUN PURI (DIN: 00048173)	28.08.2024	5
25.	Appeal No. 31/252/ND/2023 Asstt. Commissioner of Income Tax, Circle 25(1) Vs. RoC & (XAD Software Pvt. Ltd. PAN: AABCV8366Q)	1. Mr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA (DIN: 08112460) 2. Mr. RAVINDER PAL SINGH (DIN: 00835163)	28.08.2024	5

In this connection, through this Notice, the Principal Officers/ Directors of the aforesaid companies are hereby informed and requested to attend their respective cases before Hon'ble National Company Law Tribunal on the dates fixed for hearing as mentioned above. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned respective days, the case will be heard and decided in your absence.

Sd/-
 (Heera Lal)
 Income Tax Officer
 (Judicial)-3, New Delhi

CBC 15403/11/0008/2425